

ATM Classes[®]


Institute of higher educations

Physics | Chemistry | Math | Biology | English | Hindi
classroomaterials | biology | class_11 | chapter_20 | @biogurubaheri | NCERT

Locomotion and Movement

1. कंकाल पेशी के एक सार्कोमियर का चित्र बनाइए और विभिन्न भागों को चिह्नित कीजिए।

उत्तर :- कंकाल पेशी के सार्कोमियर की संरचना



चित्र- (A) विश्रामावस्था में एक सार्कोमियर (पेशी तन्तुक), (B) इसका एक पेशीखण्ड (विश्राम अवस्था में), (C) संकुचित पेशीखण्ड।

2. पेशी संकुचन के सप तन्तु सिद्धान्त को परिभाषित कीजिए।


उत्तर :- हक्सले (Huxley, 1954) ने रेखित पेशी तन्तुओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करके इनमें उपस्थित एक्टिन तथा मायोसिन छड़ों (actin and myosin filaments) का विशिष्ट विन्यास देखा। इस विन्यास को देखते हुए इन्होंने पेशी तन्तु संकुचन का सप तन्तु या छड़ विसर्पण सिद्धान्त (sliding filament theory) दिया।

रेखित पेशियों के संकुचन की कार्य-विधि

रेखित पेशियों में संकुचन तन्त्रिका उद्दीपन के फलस्वरूप होता है। एक्टिन छड़े मायोसिन छड़ों के ऊपर फिसलकर इनके भीतर (सामियर के केन्द्र की ओर) प्रवेश कर जाती हैं, जिससे पेशी तन्तु में संकुचन हो जाता है।

पेशी संकुचन का सप तन्तु या छड़ विसर्पण सिद्धान्त

सामान्य अवस्था में सार्कोमियर (sarcomere) में ATP तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं; कैल्सियम आयन भी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। एक्टिन छड़े ट्रोपोमायोसिन (tropomyosin) के साथ इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि ये मायोसिन छड़ों के साथ नहीं जुड़ सकतीं। जब पेशी तन्तु को तन्त्रिका आवेग द्वारा श्रेणहोल्ड उद्दीपन (threshold stimulus) प्राप्त होता है, तब पेशी तन्तु के अन्तर्द्वयीय जाल (ER) से Ca^{++} (कैल्सियम आयन) सार्कोमियर में मुक्त हो जाते हैं। ये कैल्सियम आयन ट्रोपोमायोसिन के साथ संयुक्त (bind) हो जाते हैं और एक्टिन छड़े (actin filaments) स्वतन्त्र हो जाती हैं। इसी समय ATP के जल विघटन (hydrolysis) के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा की उपस्थिति में एक्टिने तथा मायोसिन सक्रिय हो जाते हैं और नए सेतु बन्धों (across bridges) की रचना होती है। इसके फलस्वरूप एक्टिन छड़े मायोसिन छड़ों के ऊपर फिसलकर सार्कोमियर के केन्द्र की ओर चली जाती हैं। एक्टिन तथा मायोसिन मिलकर एक्टोमायोसिन (actomyosin) की रचना करते हैं।




चित्र-सेतु बन्धन के बनने और टूटने की अवस्थाएँ।

इस प्रक्रिया में पेशी तन्तु की लम्बाई कम हो जाती है अर्थात् संकुचन हो जाता है। जब उद्दीपन समाप्त हो जाता है, तब सक्रिय पम्पिंग द्वारा कैल्सियम आयनों को अन्तर्द्वयीय जाल में पम्प कर दिया जाता है। ट्रोपोमायोसिन स्वतन्त्र हो जाता है, इससे एक्टिन व मायोसिन के बीच के सेतु बन्ध टूट जाते हैं। एक्टिन फिर ट्रोपोमायोसिन के साथ संयुक्त (bind) हो जाता है। पेशी तन्तु वापस अपनी पुरानी लम्बाई में लौट आता है। मृत्यु के पश्चात् ATP के न बनने के कारण Ca^{++} वापस सार्कोप्लाज्मिक जाल में नहीं जा सकते; अतः पेशियाँ सिकुड़ी रह जाती हैं और शरीर अकड़ा रह जाता है।

ऊर्जा आपूर्ति (Energy supply) :-

पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति **ATP** द्वारा होती है। पेशियों में **ATP** का निर्माण ग्लाइकोजन के अपचय (**catabolism**) के फलस्वरूप होता है। पेशी संकुचन के समय **ATP** के जल विघटन (**hydrolysis**) से ऊर्जा की प्राप्ति होती है।



पेशियों में एक और उच्च ऊर्जा यौगिक उपस्थित होता है, जिसे क्रिएटिन फॉस्फेट (**creatine phosphate-PCr**) कहते हैं। इसका प्रयोग भी **ATP** निर्माण में होता है।



विश्रामावस्था में **ATP** द्वारा फिर से क्रिएटिन फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है।



इस प्रकार पेशी में क्रिएटिन फॉस्फेट का भण्डार बना रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर **ATP** प्रदान कर सकता है।

3. पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :- [संकेत-कृपया उपर्युक्त प्रश्न 2 का उत्तर देखें]

4. 'सही' या 'गलत लिखें'

- (क) एक्टिन पतले तन्तु में स्थित होता है।
- (ख) रेखित पेशी रेशे का **H**-क्षेत्र मोटे और पतले, दोनों तन्तुओं को प्रदर्शित करता है।
- (ग) मानव कंकाल में **206** अस्थियाँ होती हैं।
- (घ) मनुष्य में **11** जोड़ी पसलियाँ होती हैं।
- (ङ) उरोस्थि शरीर के अधर भाग में स्थित होती है।

उत्तर :- (क) सही, (ख) गलत, (ग) सही, (घ) गलत, (ङ) सही।

5. इनके बीच अन्तर बताइए

(क) एक्टिन और मायोसिन

(ख) लाल और श्वेत पेशियाँ

(ग) अंस और श्रोणि मेखला।

उत्तर :-

(क) एक्टिन और मायोसिन में अन्तर

क्र० सं०	एक्टिन (Actin)	मायोसिन (Myosin)
1.	ये 'I' बैण्ड में पाए जाते हैं और 'A' बैण्ड में भी उभरे रहते हैं।	ये केवल 'A' बैण्ड में पाए जाते हैं।
2.	ये मायोसिन तन्तुओं से पतले (लगभग 50Å मोटे) होते हैं। इनकी संख्या कम होती है।	ये एक्टिन की तुलना में मोटे (लगभग 100Å मोटे) होते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है।
3.	प्रत्येक मायोफाइब्रिल में लगभग 300 पेशी तन्तु होते हैं।	प्रत्येक मायोफाइब्रिल में लगभग 1500 मायोसिन तन्तु होते हैं।
4.	इनका अणुभार लगभग 46,000 डाल्टन होता है।	इनका अणुभार लगभग 4,70,000 डाल्टन होता है।
5.	सेतु बन्धन (cross bridge) अनुपस्थित होता है।	सेतु बन्धन (cross bridges) पाए जाते हैं।

(ख) लाल तथा श्वेत पेशियों में अन्तर

क्र० सं०	लाल पेशीय तन्तु (Red muscle fibres)	श्वेत पेशीय तन्तु (White muscle fibres)
1.	मायोग्लोबिन (myoglobin) पाया जाता है।	मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता।
2.	ये पतले, गहरे, लाल रंग के होते हैं।	ये मोटे तथा हल्के रंग के होते हैं।

(ग) अंस तथा श्रोणिमेखला में अन्तर

क्र० सं०	अंसमेखला (Pectoral girdle)	श्रोणिमेखला (Pelvic girdle)
1.	प्रत्येक अर्द्धांश में स्कैपुला तथा क्लैविकल (scapula and clavicle) अस्थियाँ होती हैं।	प्रत्येक अर्द्धांश में इलियम, इस्चियम और प्यूबिस (ileum, ischium and pubis) अस्थियाँ होती हैं।
2.	चपटे स्कैपुला में ग्लीनॉइड (glenoid) गुहा होती है। इसमें अग्रपाद की ह्यूमस का शीर्ष लगा होता है।	उक्त अस्थियों के सन्धि तल पर ऐसीटाबुलम गुहा (acetabulum cavity) होती है। इसमें पश्चपाद की फीमर का शीर्ष लगा होता है।
3.	प्रत्येक क्लैविकल को सामान्यतः जत्रुक (collar bone) कहते हैं।	श्रोणिमेखला के दोनों अर्द्धांश मिलकर प्यूबिक संलयन (pubic symphysis) बनाते हैं।

6. स्तम्भ I का स्तम्भ II से मिलान करें

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(i) चिकनी पेशी	(क) मायोग्लोबिन
(ii) ट्रॉपोमायोसिन	(ख) पतले तन्तु
(iii) लाल पेशी	(ग) सीवन (suture)
(iv) कपाल	(घ) अनैच्छिक

उत्तर :- (i) (घ), (ii) (ख), (iii) (क), (iv) (ग)

7. मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियाँ कौन-सी हैं?

उत्तर :- मानव शरीर की कोशिकाओं में मुख्यतः निम्नलिखित तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं

1. अमीबीय या कूटपादी गति (Amoeboid or Pseudopodial Movement) :-

मानव शरीर में पाई जाने वाली श्वेत रुधिराणु (leucocytes) एवं महाभक्षकाणु (macrophages) कोशिकाएँ कूटपाद द्वारा अमीबा की भाँति गति करती हैं।

2. पक्ष्माभी गति (Ciliary movement) :-

स्तनियों (मानव) में शुक्रवाहिनियों, अण्डवाहिनियों, श्वास नाल में पक्ष्माभ (cilia) पाए जाते हैं। इनकी गति से शुक्रवाहिनियों में शुक्राणु और अण्डवाहिनियों में अण्डाणु का परिवहन होता है। श्वासनाल के पक्ष्माभ श्लेष्मा को बाहर की ओर धकेलते हैं

3. पेशीय गति (Muscular Movement) :-

हमारे उपांगों (अग्रपाद, पशुपाद), जबड़ों, जिह्वा, नेत्रपेशियों, आहारनाल, हृदय आदि में पेशीय गति होती है। पेशीय गति में कंकाल, पेशियाँ तथा तन्त्रिकाएँ सम्मिलित होती हैं। नेत्र गोलक-नेत्र कोटर में अरेखित पेशियों द्वारा गति करता है। आइरिस तथा सिलियरी काय (iris and ciliary body) पेशियाँ नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन करती हैं। हृदय की हृदपेशियाँ तथा रक्त वाहिनियों की अरेखित पेशियाँ रक्त परिसंचरण में सहायक होती हैं। डायफ्राम तथा पसलियों के मध्य स्थित अरेखित पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन के फलस्वरूप श्वास क्रिया (breathing) सम्पन्न होती है। आहारनाल की पेशियों में क्रमाकुचन गतियों के कारण भोजन आगे खिसकता है। भोजन की लुगदी (chyme) बनती है। कंकालीय पेशियाँ (skeletal muscles) कंकाल से जुड़ी होती हैं। प्रचलन एवं अंगों की गति से ये सीधे सम्बन्धित होती हैं। कंकाल या रेखित पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन के कारण प्रचलन/गति होती है।

8. आप किस प्रकार से एक कंकाल पेशी और हृद पेशी में विभेद करेंगे?

उत्तर :-

कंकाल (रेखिल) पेशी और हृद पेशी में अन्तर

क्र० सं०	कंकाल/रेखित पेशियाँ (Striped Muscles)	हृद पेशियाँ (Cardiac Muscles)
1.	पेशी तन्तु सामान्यतः 2 से 4 सेमी लम्बे, 10-30 μ मोटे अशाखित तथा बेलनाकार होते हैं।	पेशी तन्तु लगभग 50-100 μ लम्बे तथा 20 μ मोटे एवं शाखित होते हैं और शाखाएँ आपस में एक-दूसरे से मिलकर जाल बनाती हैं।
2.	पेशी तन्तु के चारों ओर स्पष्ट सार्कोलेमा (sarcolemma) होता है।	सार्कोलेमा स्पष्ट नहीं होता।
3.	प्रत्येक पेशी तन्तु बहुकेन्द्रीय होता है।	प्रत्येक पेशी तन्तु में एक या दो केन्द्रक होते हैं।
4.	प्रत्येक पेशी तन्तु में अनेक समानान्तर तन्तुक (myofilaments) होते हैं जिनके बीच-बीच में पेशीद्रव्य (sarcoplasm) होता है।	इसमें भी समान होता है।
5.	प्रत्येक तन्तुक में गहरी तथा हल्की पट्टियाँ (bands) होती हैं।	इसमें भी गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियाँ पाई जाती हैं।
6.	अन्तर्विष्ट पट्टियाँ नहीं पाई जाती।	तन्तुओं के सिरों पर अनुप्रस्थ पट्टियाँ, अन्तर्विष्ट पट्टियाँ (intercalated discs) होती हैं।
7.	रेखित पेशियाँ ऐच्छिक तथा थकने वाली होती हैं।	हृद पेशियाँ अनैच्छिक तथा न थकने वाली होती हैं।

9. निम्नलिखित जोड़ों के प्रकार बताइए

- (क) एटलस/अक्ष (एक्सिस) (ख) अंगूठे के कार्पल/मेटाकार्पल
(ग) फैलेंजेज के बीच (घ) फीमर/एसीटेबुलम
(ङ) कपालीय अस्थियों के बीच (च) श्रोणि मेखला की प्यूबिक अस्थियों के बीच

उत्तर :-

- (क) उपास्थिमय संधि (ख) सेडल संधि (ग) कब्जा संधि (घ) कंदुक खल्लिका संधि
(ङ) सीवन (च) उपास्थिमय संधि।

10. रिक्त स्थानों में उचित शब्दों को भरिए

- (क) सभी स्तनधारियों में (कुछ को छोड़कर).....ग्रीवा कशेरुक होते हैं।
(ख) प्रत्येक मानव पाद में फैलेंजेज की संख्या.....है।
(ग) मायोफाइब्रिले के पतले तन्तुओं में 2 'F' एक्टिन और दो अन्य दूसरे प्रोटीन, जैसे.....और.....होते हैं।
(घ) पेशी रेशे में कैल्सियम.....में भण्डारित रहता है।
(च)मनुष्य का कपाल.....अस्थियों से बना होता है।

उत्तर :-

- (क) सात। (ख) 14 फैलेंजेज।
(ग) ट्रोपोनिन (troponin), ट्रोपोमायोसिन (tropomyosin)
(घ) सार्कोप्लाज्मिक जालक (sarcoplasmic reticulum)
(च) 11वीं, 12वीं (छ) 8